

शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र-दिल्ली

वार्षिक पाठ्यक्रम

कक्षा-XII

विषय- लेखांकन (055)

सत्र: (2026-27)

विषय-वस्तु

भाग A: साझेदारी फर्म और कंपनियाँ

इकाई 1: साझेदारी फर्मों के लिए लेखांकन

- साझेदारी: विशेषताएँ, साझेदारी विलेख
- साझेदारी विलेख की अनुपस्थिति में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के प्रावधान
- स्थिर बनाम परिवर्ती पूंजी खाते
- लाभ और हानि विनियोग खाता तैयार करना - भागीदारों के बीच लाभ का विभाजन, लाभ की गारंटी
- पिछले समायोजन (पूँजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, वेतन और लाभ साझा अनुपात से संबंधित)
- ख्याति : प्रकृति, प्रभावित करने वाले कारक और मूल्यांकन के तरीके - औसत लाभ, सुपर लाभ और पूंजीकरण
- नोट: साझेदार के ऋण पर ब्याज को लाभ के विरुद्ध शुल्क के रूप में माना जाएगा।

साझेदारी फर्मों के लिए लेखांकन - पुनर्गठन और विघटन

- मौजूदा भागीदारों के बीच लाभ साझा अनुपात में परिवर्तन - बलिदान अनुपात, लाभ अनुपात, परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन और देनदारियों के पुनर्मूल्यांकन का लेखांकन और भंडार व संचित लाभ का उपचार। पुनर्मूल्यांकन खाता और बैलेंस शीट तैयार करना।
- नए साझेदार की प्रवेश - लाभ साझा अनुपात में परिवर्तन का प्रभाव, ख्याति का उपचार (AS 26 के अनुसार), परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन और देनदारियों के पुनर्मूल्यांकन का उपचार, भंडार व संचित लाभ/हानि का उपचार, पूंजी खातों का समायोजन और पूंजी, चालू खाता व बैलेंस शीट तैयार करना।
- साझेदार की सेवानिवृत्ति और मृत्यु: लाभ साझा अनुपात में परिवर्तन का प्रभाव, ख्याति का उपचार (AS 26 के अनुसार), परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन और देनदारियों के पुनर्मूल्यांकन का उपचार, संचित लाभ, हानि और भंडार का समायोजन, पूंजी खातों का समायोजन और पूंजी, चालू खाता व बैलेंस शीट तैयार करना। सेवानिवृत्त साझेदार का ऋण खाता तैयार करना।
- मृत साझेदार के लाभ का हिस्सा मृत्यु की तिथि तक की गणना। मृत साझेदार का पूंजी खाता और उसके निष्पादक का खाता तैयार करना।
- साझेदारी फर्म का विघटन: साझेदारी और साझेदारी फर्म के विघटन का अर्थ, विघटन के प्रकार। खातों का निपटान - विघटन (रियलाइजेशन) खाता और अन्य संबंधित खाते तैयार करना: भागीदारों के पूंजी

खाते और नकद/बैंक खाता (टुकड़ों में वितरण, कंपनी को बिक्री और साझेदार की दिवालियापन को छोड़कर)।

नोट: (i) यदि मूल्य संपत्तियों का प्राप्त मूल्य नहीं दिया गया है, तो इसे पुस्तकीय मूल्य पर ही प्राप्त माना जाएगा। (ii) यदि अमूल्य संपत्तियों का प्राप्त मूल्य नहीं दिया गया है, तो इसे शून्य (शून्य मूल्य) माना जाएगा। (iii) यदि रियलाइजेशन खर्च किसी साझेदार द्वारा वहन किया जाता है, तो उसके भुगतान के बारे में स्पष्ट संकेत दिया जाना चाहिए।

इकाई 2: कंपनियों के लिए लेखांकन

- कंपनियों की विशेषताएँ और प्रकार
- शेयर और शेयर पूंजी: प्रकृति और प्रकार
- शेयर पूंजी के लिए लेखांकन: इक्विटी और प्रेफरेंस शेयरों का निर्गम और आवंटन। शेयरों की सार्वजनिक सदस्यता - अधिक सदस्यता और कम सदस्यता; अंकित मूल्य और प्रीमियम पर निर्गम, अग्रिम और बकाया कॉल (ब्याज को छोड़कर), नकद के अलावा अन्य विचार के लिए शेयरों का निर्गम।
- निजी प्लेसमेंट और कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना (ESOP), स्वेट इक्विटी की अवधारणा
- शेयरों की जल्दी और पुनः निर्गम का लेखांकन उपचार
- कंपनी की बैलेंस शीट में शेयर पूंजी का प्रकटीकरण

मध्यावधि पाठ्यक्रम 5 सितंबर, 2026 तक पूरा करें

मध्यावधि परीक्षा

ऋणपत्र (डिबेंचरों) के लिए लेखांकन

- ऋणपत्र : अंकित मूल्य, प्रीमियम और छूट पर निर्गम। नकद के अलावा अन्य विचार के लिए ऋणपत्र , ऋण पत्र का निर्गम; मोचन की शर्तों के साथ ऋण पत्र का निर्गम; ऋण पत्र को संपार्श्विक सुरक्षा के रूप में - अवधारणा, ऋण पत्र पर ब्याज (TDS की अवधारणा को छोड़कर)। ऋण पत्र के निर्गम पर छूट/हानि को लिखना।
- नोट: ऋण पत्र के निर्गम पर छूट या हानि को उस वर्ष में लिखा जाएगा जिसमें ऋण पत्र आवंटित किए गए हैं, पहले सिक्वोरिटी प्रीमियम रिजर्व (यदि है) से और फिर लाभ और हानि विवरण से (AS 16 के अनुसार)।

भाग B: वित्तीय विवरण विश्लेषण

इकाई 3: वित्तीय विवरणों का विश्लेषण

- कंपनी के वित्तीय विवरण: अर्थ, प्रकृति, उपयोग और महत्व
- विवरण: लाभ और हानि तथा बैलेंस शीट निर्धारित रूप में (कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसूची III के अनुसार)
नोट: असाधारण मदें, असाधारण मदें और बंद संचालन से लाभ (हानि) को छोड़कर
- वित्तीय विवरण विश्लेषण: अर्थ, महत्व, उद्देश्य, सीमाएँ
- वित्तीय विवरण विश्लेषण के उपकरण: तुलनात्मक विवरण, सामान्य आकार के विवरण, अनुपात विश्लेषण, नकदी प्रवाह विश्लेषण
- लेखांकन अनुपात: अर्थ, उद्देश्य, लाभ, वर्गीकरण और गणना

- तरलता अनुपात: चालू अनुपात और त्वरित अनुपात
- ऋण शोधन क्षमता/सॉल्वेंसी अनुपात: ऋण-इक्विटी अनुपात, कुल संपत्ति-ऋण अनुपात, स्वामित्व अनुपात और ब्याज कवरेज अनुपात, पूंजी नियोजित पर ऋण अनुपात
- गतिविधि अनुपात: इन्वेंटरीटर्नओवर अनुपात, व्यापारिक देनदार टर्नओवर अनुपात, व्यापारिक लेनदार टर्नओवर अनुपात, स्थायी संपत्ति टर्नओवर अनुपात, शुद्ध संपत्ति टर्नओवर अनुपात और कार्यशील पूंजी टर्नओवर अनुपात
- लाभप्रदता अनुपात: सकल लाभ अनुपात, परिचालन अनुपात, परिचालन लाभ अनुपात, शुद्ध लाभ अनुपात और निवेश पर प्रतिफल

नोट: शुद्ध लाभ अनुपात को कर पूर्व और कर पश्चात लाभ के आधार पर गणना करना है।

इकाई 4: नकदी प्रवाह विवरण

- अर्थ, उद्देश्य, लाभ, नकद और नकद समकक्ष, गतिविधियों का वर्गीकरण और तैयारी (AS 3 (संशोधित) (केवल अप्रत्यक्ष विधि) के अनुसार)नोट: (i) मूल्यहास और अमूर्तकरण, संपत्ति की बिक्री पर लाभ या हानि सहित निवेश, लाभांश (अंतिम और अंतरिम दोनों) और कर से संबंधित समायोजन (ii) बैंक ओवरड्राफ्ट और नकद क्रेडिट को अल्पकालिक उधारी माना जाएगा। (iii) वर्तमान निवेश को विपणन योग्य प्रतिभूतियों के रूप में लिया जाएगा जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो।

नोट: पिछले वर्षों का प्रस्तावित लाभांश, जैसा कि AS-4 में निर्धारित है, बैलेंस शीट तिथि के बाद की घटनाओं के रूप में प्रभावी होगा। चालू वर्ष का प्रस्तावित लाभांश अगले वर्ष में तब दर्ज किया जाएगा जब उसे शेयरधारकों द्वारा घोषित किया जाएगा।

परियोजना कार्य (CBSE दिशानिर्देशों के अनुसार)

पाठ्यक्रम 5 दिसंबर, 2026 तक पूरा करें

प्री-बोर्ड परीक्षा

वार्षिक परीक्षा में पूरा पाठ्यक्रम शामिल होगा

पिछले वर्ष के बोर्ड पेपर और DOE, दिल्ली द्वारा जारी सहायता सामग्री के साथ पुनरावृत्ति

लेखांकन (कोड नं. 055) कक्षा-12 (2026-27)

सिद्धांत: 80 अंकपरियोजना: 20 अंक समय 3 घंटे

इकाइयाँ	अवधि	अंक
भाग A: साझेदारी फर्म और कंपनियों के लिए लेखांकन	150	60
- इकाई 1: साझेदारी फर्मों के लिए लेखांकन	105	36
- इकाई 2: कंपनियों के लिए लेखांकन	45	24
भाग B: वित्तीय विवरण विश्लेषण	50	20
- इकाई 3: वित्तीय विवरणों का विश्लेषण	30	12

इकाइयाँ	अवधि	अंक
- इकाई 4: नकदी प्रवाह विवरण	20	8
भाग C: परियोजना कार्य	20	20
- परियोजना फ़ाइल	-	12
- मौखिक परीक्षा	-	8
कुल		20